

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल —462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-686.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् लांजी, जिला बालाघाट के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् लांजी,	अध्यक्ष	—	—	“मीराबाई नानाजी समरीते”	बहुजन समाज पार्टी
2	जिला बालाघाट.	पार्षद	1	एक	चमरूलाल पन्डे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	गौरव बैस	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अफसाना मो. सिद्धीक् अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	प्रवीण कुमार/पूरनलाल दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अनिता-आशीष नेवारे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	छाया भागीरथ बड़मे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	“नंदकिशोर तरारी”	बहुजन समाज पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सीमा टीकमचंद महोबिया	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	दुर्गा/सुरेन्द्र बडगैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	पार्षद	10	दस	विजय मुनाराम गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	सौरभ (मोनू) पशीने	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
13	पार्षद	12	बारह	उज्ज्वल उमाशंकर श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	“अमरलाल बनवारी”	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	किरण दिनेश कचवाहे	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	ज्योति महेन्द्र सोनवाने	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.